

29th October, 2020

To,
The National Stock Exchange of India Limited
“Exchange Plaza”,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra- Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai-400051

NSE Symbol : JHS

Department of Corporate Services
The Bombay Stock Exchange Limited
25th Floor , P.J Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001

Company Code No: 532771

Subject : Submission of Copies of Newspaper Advertisements

In continuation of our letter dated October 27, 2020 we enclose copies of the advertisements published on October 28, 2020, in Business Standard (English) and Business Standard (Hindi) with respect to the Notice of the Board Meeting scheduled to be held on 03rd November, 2020.

This is for your kind information and record.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours sincerely,

FOR JHS SVENDGAARD LABORATORIES LIMITED

Ashish Goel
Chief Financial Officer



Enclosure: as above

'We believe e-com can touch \$100 bn'

Walmart-owned e-commerce giant Flipkart has witnessed blockbuster festive season sales, though the firm was initially concerned about pulling off the event remotely because of the pandemic. In an interview with *Business Standard*, its Chief Executive Officer KAYAN KRISHNAMURTHY says the company has introduced many features, including launching in more languages, to drive sales across the country. Edited excerpts:

How has this year's Big Billion Days (BBD) event performed compared to the past?

Being an industry leader, the role that Flipkart plays is to expand the market. This includes getting as many customers to shop on e-commerce platforms as possible. The event has been very successful. Most of our customers, including active customers, new customers, and reactivated customers have all grown over 50 per cent on a day-to-day basis. For BBD, we had started a construct, which eventually got copied by other players.

Q&A

KAYAN KRISHNAMURTHY
CEO, Flipkart

Affordability constructs, including partnering with financial institutions and offering consumers excellent credit products, was very well received. We also launched new languages. More customers were able to shop in their native languages. For the first time, Flipkart also launched a hyperlocal shopping construct called Flipkart Quick.

Were you concerned because BBD was hosted remotely in such a large scale?

Yes, I won't say it has been easy. We had the opportunity to request our colleagues to come together and work from our facilities, but the number one metric for all leaders at Flipkart is employee safety. We continued to work remotely and operated from home. Employees at Flipkart have a lot of passion for selling the store for the festive season. Everybody joyed their best foot forward. When something goes unplanned or there is a problem, that's when it gets a bit tricky as people are not able to meet.

What kind of business has Flipkart witnessed? According to recent numbers, Flipkart has posted a record in doubling the sales of Amazon...

Flipkart ups a few points of market share during every festive season. But what has been


(reported) through the research firm, is not very different from Flipkart's usual market share and what it has commanded over the past three years. It has been going up and down a little bit, depending on the season, but that has been the case more or less.

How has Covid-19 accelerated the shift to e-commerce?

There was a shutdown of the non-essential economy for couple of months. What we saw between June and August was that we were addressing pent-up demand. There was a spike of an explosion at that time. That is over now. There are also people who are unable to go to malls and big department stores to buy. So there has been a little bit of a shift to e-commerce. We are seeing modern retail, including e-commerce, booming.

Earlier the estimates of what e-commerce can reach by 2024 was about \$50 billion to \$70 billion. It has now been revised upwards. We now believe it can actually touch about \$100 billion by 2024. There is a real shift in consumer preference and it's moving towards digital discovery. The pandemic has played a short-term role in this, but there is a realisation among consumers, sellers and brands about the value proposition that e-commerce can provide.

What kind of growth is being driven by new consumers in tier-2, tier-3 towns and beyond? The philosophy of the company is to democratise e-commerce. Almost 100 per cent of innovations in the sector have come from Flipkart. These include voice-based commerce and local language commerce. Through our own and partner logistics network, Flipkart delivers to about 28,000 pin codes, including the India-Pak border. Flipkart builds the widest selection across various price points using data and by partnering with sellers.



You recently made Investments in Arvind Fashion and Aditya Birla Fashion and Retail. What are your strategic economic objectives for the starting point of any deep partnership and investment discussion with Flipkart is that there has to be a very strong, culture and value match. We partner with companies who think long term, like 10 years, and not the next quarter or year. They have strong business ethics and operate in the right spirit for all the communities they work with.

In the case of Aditya Birla Fashion and Retail, we saw that from the beginning. We've known them for several years. We saw a very strong match in terms of culture, values and the way they conduct business. We noticed that the capabilities that the two businesses bring are very different and completely complementary to each other. We have over 3,000 employees who solve local technology problems. If you look at players like Aditya Birla Fashion or Arvind Fashion they have created a range of strong and trusted brands and a huge network of stores. We believe there can be several ways

The philosophy of the company is to democratise e-commerce. Almost 100 per cent of innovations in the sector have come from Flipkart... We will look at more partnerships with firms that are built on strong ethics, value and culture & have complementary capability skills.

for these capabilities to come together and help each other to grow. We will look at more such partnerships with companies that are built on strong ethics, values and culture and have complementary capability skills. We've done many partnerships, including investments. We bought Walmart India's wholesale business and invested in Shopsy and Minicart. We continue to look for more. The philosophy of the company has been to grow through partnerships to the extent that the entire ecosystem is successful.

You said Flipkart can bring in huge benefits for Indian farmers. Any new developments on that front? And what is the status of your application to enter the food retail business? We are committed to technology to bring benefits to the agriculture ecosystem. We are working to comply for the food retail licence taking the government's feedback on the issue. We are very hopeful that we will actually be able to get the required approvals.

WEEK 1 OF FESTIVE SALES E-tailers sell \$4.1 bn of goods, Flipkart wins Round 1: Report

PRESTON/INDIA
New Delhi, 27 October

E-commerce firms reported a 56 per cent jump in sale goods to \$4.1 billion (US\$ 600 crore) across platforms during the first week (October 15-21) of festive sales, research firm RedSeer said on Tuesday.

RedSeer, in its report, said the competitive number stood at \$2.7 billion last year. RedSeer said the platform will clock \$4 billion worth of sales. Smartphones led the sale accounting for 47 per cent of total festive sales, driven by new launches and affordable models with \$1.5 crore worth of smartphones being sold every minute across the online platforms in the first week of 2020's festive sales.

Indian e-commerce, which will build a strong foundation for its future growth, he added.

The key factors that majorly boosted this year's sale include affordability, mobile phones and 4G/LTE growth. These factors directly resulted in recovery of sales for brands and sellers, who have been strongly enabled by the online channels, to drive their sales growth which was affected by the Covid impact on offline channels, RedSeer said.

The report noted there was a massive addition of shoppers B—the total shoppers during the first week jumped from 28 million last year to 52 million this year (85 per cent YoY). Over 55 per cent of them came from tier-1 cities like Ahmedabad, Ludhiana, Chandigarh, Raipur, among others—which proves a landmark achievement for e-commerce and points to the growing 'middle class' and 'comfort with online shopping all over India, the report added.

Buyers preferred affordable all product categories, instead of expensive items. The platform established a record this year with aggressive tie-ups through brands and financing deals, coming on the back of a bleak, pandemic-affected year. Buyers preferred affordable all product categories, instead of expensive items. The platform established a record this year with aggressive tie-ups through brands and financing deals, coming on the back of a bleak, pandemic-affected year. Buyers preferred affordable all product categories, instead of expensive items. The platform established a record this year with aggressive tie-ups through brands and financing deals, coming on the back of a bleak, pandemic-affected year.

TELANGANA STATE POWER CORPORATION LIMITED
WINDU EQUITIES IN DERAGAM - 300 082

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled for the 3rd day of November 2020, to consider and take on record the audited financial results of the company for the quarter / period ended 30/09/2020. The Board Meeting Notice is available on the Stock Exchange Website - www.sebi.gov.in, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company website www.tspcoc.com.

Place: Hyderabad
Date: 28/10/2020

DREDGING CORPORATION OF INDIA LIMITED
Dredging Corporation of India Limited, 201, Park Road, New Delhi - 110002

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled for the 3rd day of November 2020, to consider and take on record the audited financial results of the company for the quarter / period ended 30/09/2020. The Board Meeting Notice is available on the Stock Exchange Website - www.sebi.gov.in, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company website www.dredging-india.com.

Place: New Delhi
Date: 28/10/2020

Jyothy Labs Limited
(Formerly known as Jyothy Laboratories Limited)

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other relevant Regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Jyothy Labs Limited (Formerly known as Jyothy Laboratories Limited) is scheduled to be held through video conferencing on Wednesday, November 4, 2020, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company on Standalone and Consolidated basis for the quarter and half year ended September 30, 2020, with limited review thereon by the Statutory Auditors of the Company.

Place: Mumbai
Date: October 27, 2020

BNP PARIBAS

Public Notice
Notice is hereby given to all concerned that BNP Paribas Wealth Management India Private Limited has discontinued its portfolio management services effective 1st October 2020 and is in the process of surrendering its registration as 'Portfolio Manager' with Securities and Exchange Board of India.

Place: Mumbai
Date: 28/10/2020

BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED
CIN: L15491WB1979CO00118

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled for the 3rd day of November 2020, to consider and take on record the audited financial results of the company for the quarter / period ended 30/09/2020. The Board Meeting Notice is available on the Stock Exchange Website - www.sebi.gov.in, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company website www.balramchm.com.

Place: Kolkata
Date: 27 October, 2020

JHS SVENDGAARD LABORATORIES LIMITED
CIN: L17110PN2001C007256

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled for the 3rd day of November 2020, to consider and take on record the audited financial results of the company for the quarter / period ended 30/09/2020. The Board Meeting Notice is available on the Stock Exchange Website - www.sebi.gov.in, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company website www.jhs-labs.com.

Place: New Delhi
Date: 28/10/2020

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL DIVISION BENCH, CHENNAI
FORM NO. CA-2 (Pursuant to Sections 230(2) and 236(1) of the Companies Act, 2013)

NOTICE
In the matter of Scheme of Arrangement between Seven Glacem Vires Private Limited and its creditors, Seven Glacem India Private Limited, a company incorporated and registered under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at F-9 & F-97, SPICOM Industrial Park, Ingaugudi, Chennai 602 105, Tamil Nadu, India. The Tribunal has appointed Mr. Anil Kumar Mohan, being which, the directors / managing directors of the Company as the Chairman of the said Meeting. The above mentioned Scheme of Arrangement, if approved by the Meeting, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

Place: Chennai
Date: 28/10/2020

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL DIVISION BENCH, CHENNAI
FORM NO. CA-2 (Pursuant to Sections 230(2) and 236(1) of the Companies Act, 2013)

NOTICE
In the matter of Scheme of Arrangement between Seven Glacem Vires Private Limited and its creditors, Seven Glacem India Private Limited, a company incorporated and registered under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at F-9 & F-97, SPICOM Industrial Park, Ingaugudi, Chennai 602 105, Tamil Nadu, India. The Tribunal has appointed Mr. Anil Kumar Mohan, being which, the directors / managing directors of the Company as the Chairman of the said Meeting. The above mentioned Scheme of Arrangement, if approved by the Meeting, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.


Place: Chennai
Date: 28/10/2020

FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton Mutual Fund
Indiabulls Finance Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

NOTICE
Investors may note that pursuant to Regulation 59A of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, a soft copy of half-yearly statement of portfolio of the schemes of Franklin Templeton Mutual Fund as on September 30, 2020 had been uploaded on Franklin Templeton Mutual Fund's website (www.franklintempletonindia.com) and on the website of AMFI (www.amfiindia.com) on October 9, 2020.

For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd.
Sd/-
Sanjay Sappre
President
Date: October 27, 2020



संक्षेप में

एडनोंक को विस्तार के लिए भारतीय भागीदार की तलाश

समुदाय अग्रणी अमेरिकी की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी अबू धाबी में स्थित भारतीय भागीदार (एडनोंक) प्रोटेक्टा और विलिंग प्रोत्साहित करने में भागीदारी के लिए भारतीय कंपनियों की तलाश में है। एडनोंक ने एक बयान में कहा कि कंपनी के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारियों के प्रथमदरजे की बैठक के बीच, एडनोंक उच्च स्तर के भारतीय भागीदारों को ढूँढ रहा है। एडनोंक ने कहा कि कंपनी को एक भारतीय भागीदार की तलाश में है। एडनोंक ने कहा कि कंपनी को एक भारतीय भागीदार की तलाश में है।

भारत में हीरो की सवारी करेगी हार्ली

समझौते के तहत हार्ली डेविडसन के वाहनों की बिक्री एवं सर्विस संभालेगी हीरो मोटोकॉर्प

भारत में हीरो की सवारी करेगी हार्ली। समझौते के तहत हार्ली डेविडसन के वाहनों की बिक्री एवं सर्विस संभालेगी हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प हार्ली डेविडसन मोटोसाइकिलों का बिक्री एवं सर्विस उपकरण प्रदान करेगा। यह दो देशों के बीच एक ऐतिहासिक सौदे के तहत है।

हीरो ने एक बयान में कहा, 'इस वितरण समझौते के अनुसार, हीरो मोटोकॉर्प हार्ली डेविडसन मोटोसाइकिलों का बिक्री एवं सर्विस उपकरण प्रदान करेगा। यह दो देशों के बीच एक ऐतिहासिक सौदे के तहत है।

महिंद्रा संग बैटरी स्विपिंग में उतरेगी आईजीएल

महिंद्रा संग बैटरी स्विपिंग में उतरेगी आईजीएल। महिंद्रा ग्रुप ने आईजीएल को बैटरी स्विपिंग सेक्टर में शामिल करने का फैसला किया है।

आईजीएल ने कहा कि यह सौदेगाहरी है। महिंद्रा ग्रुप ने आईजीएल को बैटरी स्विपिंग सेक्टर में शामिल करने का फैसला किया है।

नए सीएमडी के नाम पर पुनर्विचार करेगा एलवीवी

नए सीएमडी के नाम पर पुनर्विचार करेगा एलवीवी। एलवीवी ने कहा कि वह नए सीएमडी के नाम पर पुनर्विचार करेगा।

एलवीवी ने कहा कि वह नए सीएमडी के नाम पर पुनर्विचार करेगा।

फ़्रेडशुटोम ने निवेशकों से जुटाई रकम

फ़्रेडशुटोम ने निवेशकों से जुटाई रकम। फ़्रेडशुटोम ने निवेशकों से जुटाई रकम। फ़्रेडशुटोम ने निवेशकों से जुटाई रकम।

फ़्रेडशुटोम ने निवेशकों से जुटाई रकम। फ़्रेडशुटोम ने निवेशकों से जुटाई रकम।

प्यूचर और एमेजॉन के बीच कानूनी विकल्प

प्यूचर और एमेजॉन के बीच कानूनी विकल्प। प्यूचर और एमेजॉन के बीच कानूनी विकल्प। प्यूचर और एमेजॉन के बीच कानूनी विकल्प।

प्यूचर और एमेजॉन के बीच कानूनी विकल्प। प्यूचर और एमेजॉन के बीच कानूनी विकल्प।

इंजिनियरिंग लाइसेंस के लिए नई तकनीक तैयार

इंजिनियरिंग लाइसेंस के लिए नई तकनीक तैयार। इंजिनियरिंग लाइसेंस के लिए नई तकनीक तैयार। इंजिनियरिंग लाइसेंस के लिए नई तकनीक तैयार।

इंजिनियरिंग लाइसेंस के लिए नई तकनीक तैयार। इंजिनियरिंग लाइसेंस के लिए नई तकनीक तैयार।

भारत-बांग्लादेश के बीच 5 नवंबर से विस्तार की उड़ान

भारत-बांग्लादेश के बीच 5 नवंबर से विस्तार की उड़ान। भारत-बांग्लादेश के बीच 5 नवंबर से विस्तार की उड़ान। भारत-बांग्लादेश के बीच 5 नवंबर से विस्तार की उड़ान।

भारत-बांग्लादेश के बीच 5 नवंबर से विस्तार की उड़ान। भारत-बांग्लादेश के बीच 5 नवंबर से विस्तार की उड़ान।

आयोजन

आयोजन के तहत आयोजित किया जाएगा। आयोजन के तहत आयोजित किया जाएगा। आयोजन के तहत आयोजित किया जाएगा।

आयोजन के तहत आयोजित किया जाएगा। आयोजन के तहत आयोजित किया जाएगा।

JHS

जेएस एंटरप्राइस प्रिवेट लिमिटेड। जेएस एंटरप्राइस प्रिवेट लिमिटेड। जेएस एंटरप्राइस प्रिवेट लिमिटेड।

जेएस एंटरप्राइस प्रिवेट लिमिटेड। जेएस एंटरप्राइस प्रिवेट लिमिटेड।

बिज़नेस स्टैंडर्ड

बिज़नेस स्टैंडर्ड के तहत आयोजित किया जाएगा। बिज़नेस स्टैंडर्ड के तहत आयोजित किया जाएगा। बिज़नेस स्टैंडर्ड के तहत आयोजित किया जाएगा।

बिज़नेस स्टैंडर्ड के तहत आयोजित किया जाएगा। बिज़नेस स्टैंडर्ड के तहत आयोजित किया जाएगा।

विमान आवागमन सूचना

निर्देश सं.	सेवा का प्रकार	उड़ान संचालन की तिथि
1	एयरलाइन फ्लायर काउंसिल एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस	18 अक्टूबर 2020

विमान आवागमन सूचना के तहत आयोजित किया जाएगा। विमान आवागमन सूचना के तहत आयोजित किया जाएगा।

वेदांत फ़िनांस की रेटिंग घटा सकती है मूडी

वेदांत फ़िनांस की रेटिंग घटा सकती है मूडी। वेदांत फ़िनांस की रेटिंग घटा सकती है मूडी। वेदांत फ़िनांस की रेटिंग घटा सकती है मूडी।

वेदांत फ़िनांस की रेटिंग घटा सकती है मूडी। वेदांत फ़िनांस की रेटिंग घटा सकती है मूडी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड

बिज़नेस स्टैंडर्ड के तहत आयोजित किया जाएगा। बिज़नेस स्टैंडर्ड के तहत आयोजित किया जाएगा। बिज़नेस स्टैंडर्ड के तहत आयोजित किया जाएगा।

बिज़नेस स्टैंडर्ड के तहत आयोजित किया जाएगा। बिज़नेस स्टैंडर्ड के तहत आयोजित किया जाएगा।

BNP PARIBAS

Public Notice

Notice is hereby given to all concerned that BNP Paribas Wealth Management India Private Limited has discontinued its portfolio management services effective 1st October 2020 and is in the process of surrendering its registration as 'Portfolio Manager' with Securities and Exchange Board of India.

For BNP Paribas Wealth Management India Pvt. Ltd

Alap Solanki Anil Jain

COO Company Secretary

Phone: 022 6196 4010

पुरी के नेतृत्व में एचडीएफसी बैंक का दमदार सफर

पुरी के नेतृत्व में एचडीएफसी बैंक का दमदार सफर। पुरी के नेतृत्व में एचडीएफसी बैंक का दमदार सफर। पुरी के नेतृत्व में एचडीएफसी बैंक का दमदार सफर।

पुरी के नेतृत्व में एचडीएफसी बैंक का दमदार सफर। पुरी के नेतृत्व में एचडीएफसी बैंक का दमदार सफर।

एचडीएफसी बैंक

एचडीएफसी बैंक का दमदार सफर। एचडीएफसी बैंक का दमदार सफर। एचडीएफसी बैंक का दमदार सफर।

एचडीएफसी बैंक का दमदार सफर। एचडीएफसी बैंक का दमदार सफर।